



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 जून, 2023

आषाढ़ 9, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पंचायतीराज अनुभाग-2

संख्या 1548/33-2-2023-80जी-2000

लखनऊ, 30 जून, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0-24

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 237 की उपधारा (1) और धारा 117 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य (द्वितीय संशोधन)
नियमावली, 2023

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी; संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 में, नीचे सूत्रम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के उपनियम (1) के स्थान पर सूत्रम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :- नियम-16 का संशोधन

सूत्रम्भ-1

विद्यमान उपनियम

(1) यथास्थिति, परिषद या क्षेत्र समिति द्वारा (1) यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा

सूत्रम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

अनुमोदित निर्माण-कार्य का ब्योरेवार अनुमान जिला अभियंता के निर्देशन में तैयार किया जाएगा और ऐसे अनुमानों के लिए प्राविधिक स्वीकृति निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी :-

निर्माण कार्य की अनुमानित लागत	अधिकारी जो प्राविधिक स्वीकृति के लिए सक्षम हों
(एक) 50,000 रुपये से अधिक न हो	जिला अभियंता
(दो) 50,000 रुपये से अधिक किन्तु 5,00,000 रुपये से अधिक न हो	मुख्य अधिकारी
(तीन) 5,00,000 रुपये से अधिक किन्तु 10,00,000 रुपये से अधिक न हो	अध्यक्ष
(चार) 10,00,000 रुपये से अधिक	राज्य सरकार

अनुमोदित निर्माण-कार्य का ब्योरेवार अनुमान, जिला अभियंता के निर्देशन में तैयार किया जाएगा और ऐसे अनुमानों के लिए स्वीकृति निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत	प्राविधिक स्वीकृति देने के लिये सक्षम अधिकारी	वित्तीय स्वीकृति देने के लिए सक्षम अधिकारी	प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए सक्षम अधिकारी
(एक)	रु० 50,000 से अधिक न हो	जिला अभियंता	अपर मुख्य अधिकारी	अध्यक्ष, जिला पंचायत
(दो)	रु० 50,000 से अधिक किन्तु रु० 5,00,000 से अधिक न हो	जिला अभियंता	अपर मुख्य अधिकारी	अध्यक्ष, जिला पंचायत
(तीन)	रु० 5,00,000 से अधिक किन्तु रु० 25,00,000 से अधिक न हो	जिला अभियंता	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष, जिला पंचायत
(चार)	रु० 25,00,000 से अधिक किन्तु रु० 40,00,000 से अधिक न हो	अधिशाली अभियंता	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष, जिला पंचायत
(पांच)	रु० 40,00,000 से अधिक किन्तु रु० 1,00,00,000 से अधिक न हो	अधीक्षण अभियंता	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष, जिला पंचायत
(छः)	रु० 1,00,00,000 से अधिक	मुख्य अभियंता स्तर-2	अध्यक्ष, जिला पंचायत	राज्य सरकार

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

IN Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is Pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1548/XXXIII-2-2023-80G-2000, dated June 30, 2023 :

No. 1548/XXXIII-2-2023-80G-2000

Dated Lucknow, June 30, 2023

IN exercise of the powers under sub-section (i) of Section 237 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. XXXIII of 1961) read with sub-section (2) of section 117 of the said Adhiniyam and section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Work Rules, 1984 :

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS
WORK (SECOND AMENDMENT) RULES, 2023

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Work (Second Amendment) Rules, 2023. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Kshettra Panchayat and Zila Panchayat Work Rule, 1984, for the existing sub-rule (1) of rule 16 set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 16

COLUMN-I

Existing sub-Rule

(1) Detailed estimates of the work approved by a Parishad or Kshettra Samiti, as the case may be, shall be prepared under the guidance of the Zila Abhiyanta and technical sanction to such estimates shall be accorded by the authorities as mentioned below :-

Estimated Cost of the Work	Officer competent to accord technical sanction
(One) not exceeding Rs. 50,000	Zila Abhiyanta
(Two) Exceeding Rs. 50,000 but not exceeding Rs. 5,00,000	Apar Mukhya Adhikari
(Tree) Exceeding Rs. 5,00,000 but not exceeding Rs. 10,00,000	Adhyaksha
(Four) above Rs. 10,00,000	State Government

COLUMN- II

Sub-rule as hereby substituted

(1) Detailed estimates of the work approved by a Zila Panchayats or Kshettra Panchayats, as the case may be, shall be prepared under the guidance of the Zila Abhiyanta and sanction to such estimates shall be accorded by the authorities as mentioned below :-

Sl. No.	Estimated Cost of the Work	Officer competent to accord Technical sanction	Officer competent to accord Financial sanction	Officer competent to accord Administrative sanction
(1)	Does not Exceed Rs. 50,000	Zila Abhiyanta	Apar Mukhya Adhikari	Adhyaksha, Zila Panchayat
(2)	Exceeds Rs. 50,000 but dose not exceed Rs. 5,00,000	Zila Abhiyanta	Apar Mukhya Adhikari	Adhyaksha, Zila Panchayat
(3)	Exceeds Rs. 5,00,000 but dose not exceed Rs. 25,00,000	Zila Abhiyanta	Adhyaksha, Zila Panchayat	Adhyaksha, Zila Panchayat
(4)	Exceeds Rs. 25,00,000 but dose not exceed Rs. 40,00,000	Executive Engineer	Adhyaksha, Zila Panchayat	Adhyaksha, Zila Panchayat
(5)	Exceeds Rs. 40,00,000 but dose not exceed Rs. 1,00,00,000	Superinten -dent Engineer	Adhyaksha, Zila Panchayat	Adhyaksha, Zila Panchayat
(6)	Above Rs. 1,00,00,000	Chief Engineer level-2	Adhyaksha, Zila Panchayat	State Government

By order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 433 राजपत्र-2023-(1424)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 11 सा० पंचायतीराज-2023-(1425)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।